

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2932

सोमवार, 21 मार्च, 2022/30 फाल्गुन, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन के संवर्धन के लिए महाराष्ट्र को विशेष पैकेज

†2932. श्री सुनील बाबूराव मेंढे:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) महाराष्ट्र में पर्यटन के विकास के लिए प्राथमिकता वाली योजनाओं और इन योजनाओं के लिए महाराष्ट्र को पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान आवंटित राशि में से योजना-वार कितनी राशि खर्च की गई और शेष राशि का योजना-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा राज्यों को कोई विशेष पैकेज दिया जाता है और यदि हां, तो महाराष्ट्र को कोई विशेष पैकेज कब दिया गया था; और
- (घ) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं की प्रगति की स्थिति के संबंध में कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय ने 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरास संवर्धन अभियान सम्बन्धी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य को पर्यटन सम्बन्धी अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग): पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन के संवर्धन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को विशेष पैकेज स्वीकृत/प्रदान नहीं किए जाते हैं।

(घ): पर्यटन मंत्रालय स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी अपने फील्ड निरीक्षणों और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/ केन्द्रीय एजेंसियों के साथ आवधिक रूप से आयोजित समीक्षा बैठकों के माध्यम से करता है। इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन और प्रशाद योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

पर्यटन के संवर्धन के लिए महाराष्ट्र को विशेष पैकेज के सम्बन्ध में दिनांक 21.03.2022 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +2932 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण

स्वदेश दर्शन योजना

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	राज्य	परिपथ	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	जारी राशि	उपयोग की गई राशि
वर्ष 2015-16						
1.	महाराष्ट्र	तटवर्ती परिपथ	सिंधुदुर्ग तटवर्ती परिपथ (शिरोडा बीच, सागरेश्वर, तारकरली, विजयदुर्ग (समुद्र तट और क्रीक), देवगढ (किला और समुद्र तट), मितभाव, टोंडावली, मोसेहमद और निवती किला) का विकास	19.06	18.11	16.45
वर्ष 2018-19						
2.	महाराष्ट्र	आध्यात्मिक परिपथ	वाकी-अडासा-धापेवाड़ा-परदसिंह-छोटा ताज बाग-तेलखंडी-गिराड का विकास	54.01	24.00	13.03

प्रशाद योजना

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	अनुमोदित लागत	जारी राशि	उपयोग की गई राशि
1.	महाराष्ट्र	त्रिम्बकेश्वर का विकास	2017-18	37.81	19.28	15.39

पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता योजना

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	केन्द्रीय एजेंसी	अनुमोदित लागत	जारी राशि	उपयोग की गई राशि
वर्ष 2016-17						
1.	महाराष्ट्र	पर्यटन स्थल के रूप में कान्होजी आंग्रे लाइटहाउस को विकसित करने के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को केन्द्रीय वित्तीय सहायता	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	15.00	15.00	15.00

2.	महाराष्ट्र	नांदेड रेलवे स्टेशन का संयुक्त विकास	रेल मंत्रालय	5.18	2.59	2.59
वर्ष 2017-18						
3.	महाराष्ट्र	इंदिरा डॉक, मुंबई में अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उन्नयन/आधुनिकीकरण।	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	12.50	12.50	12.50
4.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का संयुक्त विकास	रेल मंत्रालय	5.71	2.85	1.06
वर्ष 2021-22						
5.	महाराष्ट्र	इंदिरा डॉक, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उन्नयन/आधुनिकीकरण	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	37.50	18.75	--

\*\*\*\*\*